

Interactive School Engagement Programme – Question Bank With Answer.

1. बी.एल.ओ. का Full Form क्या है ?

उत्तर: बूथ लेबल ऑफिसर

2. A.E.R.O/E.R.O का Full Form क्या है ?

उत्तर: A.E.R.O & Assistant Electoral Registration Officer. (सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) E.R.O & Electoral Registration Officer. (निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी)

3. अगर किसी व्यक्ति के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र है तो वह मतदान कर सकता है ?

उत्तर: नहीं, मतदान करने के लिये मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।

4. यदि किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज है और उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र भूल गया है, तो क्या वे वोट दे सकते हैं ?

उत्तर: हाँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र के रूप में अन्य दस्तावेज का प्रयोग करने हेतु निर्देश प्राप्त है।

5. भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी ?

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।

6. फार्म 6 क्या होता है?

उत्तर: फार्म 6 एक आवेदन फार्म होता है जिसे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसके द्वारा भारत के नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिये आवेदन करते हैं।

7. हम फार्म 6 कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर: फार्म 6 हम भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट www.eci.nic.in से Download कर सकते हैं तथा बूथ लेबल ऑफिसर, सहायक निर्वाचक निबंधन कार्यालय, निर्वाचक निबंधन कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

8. क्या फार्म 6 के लिये हमें पैसे देने पड़ते हैं ?

उत्तर: नहीं, सभी फार्म 6, 7, 8, 8'क' निःशुल्क हैं।

9. क्या ऐसा व्यक्ति जो की भारत का नागरिक नहीं है चुनाव लड़ सकता है ?

उत्तर: नहीं, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार वह व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, चुनाव लड़ सकता है।

10. NRI (Non Resident Indian) मतदाता किसे कहते हैं ?

उत्तर: वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक होते हैं किन्तु शैक्षणिक एवं अन्य कार्य के लिये दूसरे देशों में रहते हैं तथा जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उन्हें NRI (Non Resident Indian) मतदाता कहते हैं।

11. क्या ऐसा व्यक्ति जो की भारत का नागरिक नहीं है, भारत में मतदाता बन सकता है ?

उत्तर: नहीं, वैसे व्यक्ति जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, भारत में मतदाता नहीं बन सकते हैं। मतदाता बनने के लिये भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

12. मतदाता बनने के लिये क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए?

उत्तर: मतदाता बनने के लिये योग्यता निम्नवत् हैं :-

1. वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हों।
2. जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
3. जिनके पास आयु प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र हो।

13. NOTA का Full Form क्या होता है?

उत्तर: Non Of The Above (इनमें से कोई नहीं)।

14. EPIC का Full Form क्या होता है?

उत्तर: Electoral Photo Identity Card.

15. भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहां है ?

उत्तर: निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में।

16. EVM का Full Form क्या होता है ?

उत्तर: **Electronic Voting Machine.**

17. ईलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था ?

उत्तर: **केरल राज्य में।**

18. निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिये कौन से फार्म का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर: **निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिये फार्म 7 का उपयोग किया जाता है।**

19. क्या एक वोट से कोई व्यक्ति हार या जीत सकता है ?

उत्तर: **हाँ, बिल्कुल हमारे देश में एक वोट का भी बहुत महत्व है तथा एक वोट पर किसी भी व्यक्ति की हार या जीत निर्भर करती है।**

20. क्या बिना अमिट स्याही का प्रयोग किये बिना कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है ?

उत्तर: **नहीं, मतदान करने के लिये अमिट स्याही लगाना अनिवार्य है।**

21. यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से दो स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है तो क्या वो दोनो जगहों पर मतदान कर सकता है ?

उत्तर: **नहीं, एक मतदाता केवल एक स्थान पर एक बार मतदान कर सकता है।**

22. क्या मतदाता बनने के लिये कोई अधिकतम आयु भी निर्धारित है ?

उत्तर: **नहीं, मतदाता बनने के लिये कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है।**

23. क्या चुनाव लड़ने के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है ?

उत्तर: **नहीं, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने के लिये ऐसी कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।**

24. क्या मतदान के दिन अवकाश होता है ?

उत्तर: **हाँ, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान के दिन अवकाश होता है।**

25. क्या हम मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं ?

उत्तर: नहीं, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन का प्रयोग करना वर्जित है।

26. अगर हमें मतदान केन्द्र पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो किससे सम्पर्क करना चाहिए ?

उत्तर: मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान के लिये वहाँ उपस्थित पिठासीन पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

27. अगर कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है और वहाँ उपस्थित मशीन (बैलौट युनिट) का बटन काम न करे तो किससे सम्पर्क करना चाहिए ?

उत्तर: मतदान केन्द्र में उपस्थित मशीन में अगर किसी भी प्रकार की खराबी होती है तो इसके लिये वहाँ उपस्थित पिठासीन पदाधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए।

28. भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाईट कब लॉन्च किया गया ?

उत्तर: 28 फरवरी 1998 को भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाईट लॉन्च किया गया।

29. भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।

30. ECI किसे कहते हैं ?

उत्तर: Election Commission Of India (भारत निर्वाचन आयोग) को ECI कहते हैं।

31. VVPAT का Full Form क्या होता है ?

उत्तर: Voter Verifiable Paper Audit Trail.